



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181]
No. 181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 1979/वैशाख 7, 1901
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 1979/VAISAKHA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 अप्रैल, 1979 को की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1979

क्र० आ० 229 (अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371 अ के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का विस्तार, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों, यदि कोई हों, और निम्नलिखित और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, सिक्किम राज्य पर करते हैं, अर्थात्:—

(1) उक्त अधिनियमितियों में, सिक्किम राज्य में ऐसी विधि, जो प्रवृत्त नहीं है या ऐसे कृत्यकारी जो विद्यमान नहीं हैं, के प्रति निवेश का अर्थान्वयन उस राज्य की तत्समान प्रवृत्त विधि या तत्समान विद्यमान कृत्यकारी के प्रति निवेश के रूप में प्रवृत्त किया जायेगा:

परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्समान कृत्यकारी कौन है या यदि ऐसा तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चित करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिनियमिति के सुसंगत उपबन्ध में, यदि कोई हो, उसके प्रारम्भ की बाबत अलखिष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी प्रत्येक अधिनियमिति के उपबन्ध सिक्किम राज्य में उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु किसी अधिनियमिति के विभिन्न उपबन्धों और सिक्किम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे उपबन्ध में, अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निवेश या अर्थान्वयन, उस क्षेत्र में, जहां वह प्रवृत्त किया गया है उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निवेश के रूप में किया जाएगा।

अनुसूची

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	उपान्तरण
1	2	3	4
1962	52	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	—
1974	52	विशेषी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गति-विधियों निवारण अधिनियम, 1974	—

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[क्र० संख्या 11013/1/79-सिक्किम
एम० एल० कम्पानी, अवध

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

The following notification made by the President of India on the 26th April, 1979 is published for general information—

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1979

S.O. 229 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371 F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the enactments specified in the Schedule annexed hereto, subject to the modifications, if any specified in that Schedule and the following further modifications, namely :—

(1) Any reference in the said enactments to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force or to the corresponding functionary in existence in that State :

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision, if any, of each such enactments for the commencement thereof, the provisions of each such enactments shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of any enactment and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

SCHEDULE

Year	No.	Short Title	Modifications
(1)	(2)	(3)	(4)
1962	52	The Customs Act, 1962	—
1974	52	The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974	—

NEELAM SANJIVA REDDY, President
[F. No. 11013/1/79-SKM]
M. L. KAMPANI, Addl. Secy.